



केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 08 फरवरी 2025
को नई दिल्ली में आयोजित छह सौ तेरहवीं (613वीं)
बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

गवर्नर

संजय मल्होत्रा: अध्यक्ष

उप गवर्नर

एम. राजेश्वर राव टी. रबी शंकर
स्वामीनाथन जे.

निदेशक

अजय सेठ	नागराजू महिराला
सतीश के. मराठे	एस. गुरुमूर्ति
रेवती अय्यर	सचिन चतुर्वेदी
वेणु श्रीनिवासन	पंकज रमणभाई पटेल
रवीन्द्र एच. धोलकिया	

उपस्थित आमंत्रित - कार्यपालक निदेशक

एस.सी. मुर्मू	ओ.पी. मल्ल
जयन्त कुमार दाश	रोहित जैन
राधा श्याम रथ	अजय कुमार
राजीव रंजन	नीरज निगम
पी. बासुदेवन	मनीष कपूर
आर. लक्ष्मी कांत राव	अर्णब कुमार चौधरी
चारुलता एस. कर	अविरल जैन
सुधा बालकृष्णन	

उपस्थित

वाई. जयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव.



**केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक की 08 फरवरी 2025
को नई दिल्ली में आयोजित छह सौ तेरहवीं (613वीं)
बैठक का कार्यवृत्त**

गवर्नर ने बोर्ड की बैठक में सभी सहभागियों का स्वागत किया और सूचित किया कि इस बैठक के बाद माननीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा संवाद और संबोधित किया जाएगा और यह निदेशकों के लिए 01 फरवरी 2025 को माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का एक अवसर है। गवर्नर ने आगे सूचित किया कि डॉ. ओ. पी. मल्ल, कार्यपालक निदेशक और श्री मनीष कपूर, कार्यपालक निदेशक केंद्रीय बोर्ड की अपनी अंतिम बैठक में भाग ले रहे थे, क्योंकि ये दोनों बैंक की सेवा से फरवरी 2025 के अंत में अधिवर्षित हो रहे थे। बोर्ड ने सेवानिवृत्त कार्यपालकों द्वारा बोर्ड के विचार-विमर्श में दिए गए योगदान की अगाध सराहना की तथा उन्हें शुभकामनाएं दीं।

2. तदुपरांत, बैठक की कार्यसूची पर चर्चा आरंभ की गई। बैठक की कार्यसूची अनुलग्नक में है।
3. **केंद्रीय बोर्ड की 20 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**
 - 3.1 केंद्रीय बोर्ड की 20 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अभिलिखित किया गया।
 - 3.2 अध्यक्ष ने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।
4. **निदेशकों को अनुपस्थिति की अनुमति**
 - 4.1 बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री आनंद गोपाल महिंद्रा से प्राप्त अनुपस्थित रहने की अनुमति संबंधी अनुरोध पर विचार किया और उन्हें स्वीकृत किया।
5. **संवेदना संकल्प – डॉ. मनमोहन सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर**
 - 5.1 बोर्ड ने संवेदना संकल्प - डॉ. मनमोहन सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर पर कार्यपालक निदेशक के 29 जनवरी 2025 के ज्ञापन पर विचार किया।



5.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि बोर्ड भारतीय सार्वजनिक जीवन के एक महान हस्ती डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिनका शानदार कैरियर कई दशकों तक चला और उन्होंने राष्ट्र की सेवा में कई भूमिकाएँ निभाईं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका योगदान, राष्ट्र के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ी है।

डॉ. मनमोहन सिंह का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता था, जिसने भारत को असैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुँच प्रदान की। इस समझौते ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई।

वर्ष 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में डॉ. सिंह ने भारत में आर्थिक उदारीकरण का नेतृत्व किया। उनके दूरदर्शी सुधारों ने तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके नेतृत्व में, भारत ने बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, जिससे अभूतपूर्व आर्थिक विस्तार और विकास के युग की नींव रखी गई।

डॉ. सिंह का रिज़र्व बैंक के साथ जुड़ाव, शुरुआत में 1977 से 1980 तक केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में और बाद में 1982 से 1985 के दौरान गवर्नर और अध्यक्ष के रूप में था, जो सार्वजनिक नीति, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता थी। रिज़र्व बैंक में अपने कार्यकाल के



दौरान, डॉ. सिंह ने उत्कृष्ट योगदान दिया और बैंक की नीतियों को एक नई दिशा दी। उन्होंने विभिन्न जटिल मुद्दों को दूरदर्शिता, उद्देश्य और दृढ़ता के साथ निष्पक्ष रूप से संबोधित किया। उनके द्वारा तैयार की गई रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति ने सार्वभौमिक प्रशंसा प्राप्त की। भारत की वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और मजबूती में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण योगदान दिया और आर्थिक पुनरुत्थान का नेतृत्व किया।

डॉ. सिंह अपने पीछे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण की समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। आर्थिक सुधारों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वित्तीय अभिशासन में उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और लोक सेवकों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

बोर्ड इस भारी क्षति पर उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है।

यह भी संकल्प पारित किया गया

कि इस संकल्प की एक प्रति सचिव द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह के परिवार को प्रेषित की जाए।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र की सेवाओं की सराहना
- 6.1 बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र की सेवाओं की सराहना पर कार्यपालक निदेशक के 05 फरवरी 2025 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 6.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड 15 जनवरी 2020 से 14 जनवरी 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. माइकल देवब्रत पात्र द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी अत्यंत सराहना करता है।



डॉ. पात्र 1985 में भारतीय रिज़र्व बैंक से जुड़े और विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने दिसंबर 2008 से जून 2012 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कार्यपालक निदेशक (भारत) के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम किया था। डॉ. पात्र ने 2016 में रिज़र्व बैंक द्वारा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) फ्रेमवर्क में बदलाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद से गठित सभी तीन मौद्रिक नीति समितियों में काम किया था और भारत के मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

डॉ. पात्र ने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएफआरएल), मुंबई की गवर्निंग काउंसिल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर), मुंबई के प्रबंधन बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), मुंबई के गवर्निंग बोर्ड और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), मुंबई के बोर्ड में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) - ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम (सीजीएफएस) समिति में भी आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है। G20 बैठकों में फ़ाइनेंस डेप्युटी (केंद्रीय बैंक का प्रतिनिधित्व) के रूप में उनका योगदान, विशेष रूप से 2023 में भारत की अध्यक्षता आयोजित G20 के दौरान, काफ़ी सराहा गया।

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने 1 फरवरी 2020 से निक्षेप बीमा कवर को ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख



करके और बीमित जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन करके ऐतिहासिक कार्य किया।

डॉ. पात्र ने आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, विनिमय दर और भुगतान संतुलन के क्षेत्रों में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनके विद्वत्तापूर्ण योगदान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीति निर्माण पर चर्चा को समृद्ध किया है।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड और इसकी समितियों के विचार-विमर्श को समृद्ध बनाने में डॉ. पात्र के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और भविष्य में उनकी सफलता की कामना करता है। बोर्ड उन्हें और उनके परिवार को आने वाले वर्षों में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की शुभकामनाएं देता है।

यह भी संकल्प पारित किया गया

कि इस संकल्प की एक प्रति सचिव द्वारा निदेशक को प्रेषित की जाए।

7. केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना

7.1 निदेशकों के बीच पहले से परिचालित, केंद्रीय बोर्ड समिति की 04 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 के बीच आयोजित बैठकों के कार्य विवरण बोर्ड को प्रस्तुत किए गए और अभिलिखित किए गए।

8. दिनांक 31 जनवरी 2025 को समाप्त सप्ताह का भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण

8.1 दिनांक 31 जनवरी 2025 को समाप्त सप्ताह का बैंक का साप्ताहिक लेखा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

8.2 बोर्ड ने लेखा अनुमोदित किया।

9. साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (डबल्यूएफ़सीआर)



- 9.1 बोर्ड ने सप्ताह के दौरान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न चुनौतियों और साप्ताहिक वित्तीय और वाणिज्यिक रिपोर्ट (डब्ल्यूएफसीआर) में दर्शाए गए आउटलुक के जोखिमों सहित वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता की समीक्षा और चर्चा की।
- 9.2 रिपोर्ट को अभिलिखित किया गया।
10. जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट
- 10.1 बोर्ड ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट पर कार्यपालक निदेशक के दिनांक 27 जनवरी 2025 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 10.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:
- संकल्प पारित किया गया
- कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग की गतिविधियों की रिपोर्ट पर कार्यपालक निदेशक के ज्ञापन को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।
11. जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट
- 11.1 बोर्ड ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट पर कार्यपालक निदेशक के दिनांक 10 जनवरी 2025 के ज्ञापन पर विचार किया।
- 11.2 बोर्ड ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:
- संकल्प पारित किया गया
- कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रिपोर्ट पर कार्यपालक निदेशक के दिनांक 10 जनवरी 2025 के ज्ञापन को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।



12. दिनांक 11 नवंबर 2024 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त

12.1 दिनांक 11 नवंबर 2024 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

12.2 बोर्ड ने उसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि दिनांक 11 नवंबर 2024 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188वीं बैठक के कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

13. केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (उत्तरी क्षेत्र) की 13 दिसंबर 2024 को कानपुर में आयोजित बैठक का कार्य विवरण

13.1 केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (उत्तरी क्षेत्र) की 13 दिसंबर 2024 को कानपुर में आयोजित बैठक का कार्य विवरण केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत किया गया।

13.2 बोर्ड ने उसपर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (उत्तरी क्षेत्र) की 13 दिसंबर 2024 को कानपुर में आयोजित बैठक के कार्य विवरण को अभिलिखित किया जाए और इसे इसके द्वारा अभिलिखित किया जाता है।

14. केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 21 मार्च 2025 को तिरुवनंतपुरम में संकल्प पारित किया गया

कि केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक 21 मार्च 2025 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाए।



कॅनिबो की 08 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में
आयोजित 613वीं बैठक का कार्यवृत्त

15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

कुछ नहीं

सूचना मद

(i) केंद्रीय बोर्ड के निदेशों का अनुपालन

(क) सूचना मद को अभिलिखित किया गया।

दिनांक: 21 मार्च 2025



कैनिवो की 08 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में
आयोजित 613वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुलग्नक

केंद्रीय बोर्ड की 613वीं बैठक
शनिवार, 08 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में
कार्यसूची

कार्यसूची सं.	कार्यसूची मद	विभाग
1.	केंद्रीय बोर्ड की 20 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना	सचिव
2.	निदेशकों को अनुपस्थिति की अनुमति	सचिव
3.	संवेदना संकल्प – डॉ. मनमोहन सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर	सचिव
4.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र की सेवाओं की सराहना	सचिव
5.	केंद्रीय बोर्ड समिति की बैठकों के कार्य विवरण प्रस्तुत करना	सचिव
6.	दिनांक 31 जनवरी 2025 को समाप्त सप्ताह का भारतीय रिज़र्व बैंक का साप्ताहिक कार्य विवरण	डीजीबीए
7.	साप्ताहिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक रिपोर्ट (WFCR)	डीईपीआर
8.	जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट	डीईआईओ
9.	जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों पर रिपोर्ट	डीएसआईएम
10.	दिनांक 11 नवंबर 2024 को आयोजित केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त	राजभाषा
11.	केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति (उत्तरी क्षेत्र) की 13 दिसंबर 2024 को कानपुर में आयोजित बैठक का कार्य विवरण	सचिव
12.	केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक की तारीख और स्थान – 21 मार्च 2025 को तिरुवनंतपुरम में	सचिव
13.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	सचिव
सूचना मद		
i.	केंद्रीय बोर्ड के निदेशों का अनुपालन	सचिव



**Minutes of the Six Hundred and Thirteenth (613th) Meeting of the
Central Board of Directors of the Reserve Bank of India
held on February 08, 2025 at New Delhi**

PRESENT

Governor

Sanjay Malhotra: Chairman

Deputy Governors

M. Rajeshwar Rao T. Rabi Sankar
Swaminathan J.

Directors

Ajay Seth Nagaraju Maddirala
Satish K. Marathe S. Gurumurthy
Revathy Iyer Sachin Chaturvedi
Venu Srinivasan Pankaj Ramanbhai Patel
Ravindra H. Dholakia

Present by Invitation - Executive Directors

S.C. Murmu O.P. Mall
Jayant Kumar Dash Rohit Jain
Radha Shyam Ratho Ajay Kumar
Rajiv Ranjan Neeraj Nigam
P. Vasudevan Muneesh Kapur
R. Lakshmi Kanth Rao Arnab Kumar Chowdhury
Charulatha S. Kar Aviral Jain
Sudha Balakrishnan

In Attendance

Y. Jayakumar, CGM & Secretary



Minutes of the 613th Meeting of the CBD
held on February 08, 2025 at New Delhi

**Minutes of the Six Hundred and Thirteenth (613th) Meeting of the
Central Board of Directors of the Reserve Bank of India
held on February 08, 2025 at New Delhi**

Governor welcomed all the participants to the Board meeting and informed that the meeting would be followed by interaction and address by the Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs and that it was an opportunity for the Directors to convey their views about the Union Budget presented by the Hon'ble Minister on February 1, 2025. Governor also informed that this was the last Central Board meeting for Dr. O.P. Mall, Executive Director and Shri Muneesh Kapur, Executive Director, as both of them were superannuating from the Bank's Service at the end of February 2025. The Board placed on record their deep appreciation for the contributions by the retiring executives to the Board deliberations and wished them well.

2. The Agenda for the meeting was taken up, thereafter. The agenda of the meeting is at Annex.
3. **Minutes of the meeting of the Central Board held on December 20, 2024**
 - 3.1 The minutes of the meeting of the Central Board held on December 20, 2024 were approved by the Central Board and recorded.
 - 3.2 The Chairman signed the minutes.
4. **Grant of leave of absence to Directors**
 - 4.1 The Board considered the request for leave of absence from Central Board Director, Shri Anand Gopal Mahindra and granted the same.
5. **Condolence Resolution - Dr. Manmohan Singh, former Governor of Reserve Bank of India**
 - 5.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated January 29, 2025 on Condolence Resolution - Dr. Manmohan Singh, former Governor of Reserve Bank of India.
 - 5.2 The Board passed the following resolution:



Resolved

that the Board expresses its profound sorrow on the sad demise of Dr. Manmohan Singh, a towering figure in Indian public life, whose illustrious career spanned several decades and multifarious roles in service to the nation. His contributions as Prime Minister, Finance Minister, and Governor of the Reserve Bank of India have left an enduring legacy on the nation.

Dr. Manmohan Singh's tenure as the Prime Minister of India from 2004 to 2014, was marked by significant achievements, most notably the landmark Indo-US Civil Nuclear Agreement, which facilitated India's access to nuclear technology and fuel for civilian purposes. This agreement not only bolstered India's energy security but also marked a significant milestone in its strategic partnership with the United States, strengthening India's position on the global stage.

As the Finance Minister from 1991 to 1996, Dr. Singh spearheaded economic liberalization in India. His visionary reforms paved the way for rapid economic growth. Under his stewardship, India transitioned towards a market-driven economy, setting the stage for an era of unprecedented economic expansion and development.

Dr. Singh's association with the Reserve Bank, initially as Director on the Central Board from 1977 to 1980 and later as the Governor and Chairman during 1982 to 1985, was characterized by his unwavering commitment to public policy, financial stability and economic development. During his tenure in the Reserve Bank, Dr. Singh made outstanding contributions and gave a new direction to the policies of the Bank. He addressed various complex issues with a sense of vision, purpose and firmness combined with fairness. The monetary policy of the Reserve



Bank shaped by him attracted universal acclaim. His leadership contributed significantly to the resilience and strength of India's financial system and led to its economic resurgence.

Dr. Singh leaves behind a rich legacy of integrity, wisdom, and unwavering dedication to the nation. His contribution to economic reforms, international diplomacy, and financial governance have left an indelible mark on India's history. His visionary leadership and commitment to public service will continue to inspire future generations of economists, policymakers, and public servants.

The Board expresses its deep condolences to his family on this grave loss.

Resolved further

that, a copy of this resolution be forwarded to the family of Dr. Manmohan Singh by the Secretary.

6. Appreciation of the services of Dr. Michael Debabrata Patra, former Deputy Governor, Reserve Bank of India

6.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated February 05, 2025 on Appreciation of the services of Dr. Michael Debabrata Patra, former Deputy Governor, Reserve Bank of India.

6.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Central Board places on record its appreciation for the outstanding services rendered by Dr. Michael Debabrata Patra during his tenure as Deputy Governor in the Reserve Bank of India from January 15, 2020 to January 14, 2025.

Dr. Patra had joined the Reserve Bank of India in 1985 and worked in various capacities. He had also served in the International Monetary Fund (IMF) as Senior Adviser to



Executive Director (India) during December 2008 to June 2012. Dr. Patra played an instrumental role as the Reserve Bank transitioned to the flexible inflation targeting (FIT) framework in 2016. He was the only member who had worked in all the three Monetary Policy Committees constituted since the adoption of the flexible inflation targeting framework and played a pivotal role in steering India's monetary policy framework towards greater transparency, accountability, and effectiveness.

Dr. Patra represented RBI on the Governing Council of the Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Mumbai, the Board of Management of the Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Mumbai, the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM), Mumbai and the Board of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Mumbai. He also served as the Chairman of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM), Guwahati. He has also represented the RBI in the Bank for International Settlements (BIS) - the Committee on Global Financial System (CGFS). His contribution as Finance Deputy (representing the Central Bank) in the G20 meetings, especially during India's Presidency of the G20 in 2023 is well appreciated.

As Chairman of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), he steered landmark developments in the sphere of deposit insurance such as the increase in the deposit insurance cover from ₹ 1 Lakh to ₹ 5 Lakh with effect from February 1, 2020, and the amendment in the DICGC Act facilitating timely payments to insured depositors.

Dr. Patra has published several research papers in the areas of economic policy, monetary policy, international trade and finance, including exchange rate and balance of payments. His



scholarly contributions have enriched the discourse on economic policymaking both nationally and internationally.

The Central Board of Directors appreciates Dr. Patra's valuable contributions in enriching the deliberations of the Central Board and its Committees and wishes him all success in the future. The Board wishes him and his family all the very best and good health and happiness in the years to come.

Resolved further

that, the Secretary may convey the above resolution to the Director.

7. Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board

- 7.1 Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board held between December 04, 2024 and January 22, 2025 already circulated among the Directors, were submitted to the Central Board and recorded.

8. Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended January 31, 2025

- 8.1 The weekly accounts of the Bank for the week ended January 31, 2025 were submitted to the Central Board.
- 8.2 The Board approved the accounts.

9. Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)

- 9.1 The Board reviewed and discussed the global and domestic economic situation during the week, the challenges posed by geopolitical developments and global financial market volatility including risks to the outlook as reflected in the Weekly Financial and Commercial Report (WFCR).
- 9.2 The Report was recorded.



10. Report on the activities of the Department of External Investments and Operations for the period January 2024 to December 2024

10.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated January 27, 2025 on Report on the activities of the Department of External Investments and Operations for the period January 2024 to December 2024.

10.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Executive Director's Memorandum for the period January-December 2024 reviewing the activities of the Department of External Investments and Operations be, and is hereby, recorded.

11. Report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2024 to December 2024

11.1 The Board considered the Executive Director's Memorandum dated January 10, 2025 on Report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2024 to December 2024.

11.2 The Board passed the following resolution:

Resolved

that the Executive Director's Memorandum dated January 10, 2025 on the report of the activities of the Department of Statistics and Information Management (DSIM) for the period January 2024 to December 2024 be, and is, hereby recorded.

12. Minutes of 188th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on November 11, 2024



12.1 Minutes of 188th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on November 11, 2024 were submitted to the Central Board.

12.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the Minutes of 188th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on November 11, 2024 be, and are hereby, recorded.

13. Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Northern Area) held on December 13, 2024 at Kanpur

13.1 Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Northern Area) held on December 13, 2024 at Kanpur were submitted to the Central Board.

13.2 The Board considered the same and passed the following resolution:

Resolved

that the Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Northern Area) held on December 13, 2024 at Kanpur, be and are hereby, recorded.

14. Date and place of next Central Board Meeting – March 21, 2025 at Thiruvananthapuram

Resolved

that the next Central Board Meeting will be held on March 21, 2025 at Thiruvananthapuram.

15. Any other business with the permission of the Chair

Nil



Minutes of the 613th Meeting of the CBD
held on February 08, 2025 at New Delhi

Information Item

(i) Compliance to the Directions of the Central Board

(a) The information item was Recorded.

Dated the March 21, 2025



Minutes of the 613th Meeting of the CBD
held on February 08, 2025 at New Delhi

Annex

613th Central Board Meeting Saturday, February 08, 2025 at New Delhi Agenda

Agenda No.	Agenda Item	Department
1.	Signing of Minutes of the meeting of the Central Board held on December 20, 2024	Secretary's
2.	Grant of leave of absence to Directors	Secretary's
3.	Condolence Resolution - Dr. Manmohan Singh, former Governor of Reserve Bank of India	Secretary's
4.	Appreciation of the services of Dr. Michael Debabrata Patra, former Deputy Governor, Reserve Bank of India	Secretary's
5.	Submission of Proceedings of the meetings of the Committee of Central Board	Secretary's
6.	Weekly Statement of Affairs of Reserve Bank of India for the week ended January 31, 2025	DGBA
7.	Weekly Financial and Commercial Report (WFCR)	DEPR
8.	Report on the activities of the Department of External Investments and Operations for the period January 2024 to December 2024	DEIO
9.	Report on the activities of the Department of Statistics and Information Management for the period January 2024 to December 2024	DSIM
10.	Minutes of 188 th Meeting of the Central Official Language Implementation Committee held on November 11, 2024	Rajbhasha
11.	Proceedings of the Meeting of the Standing Committee of Central Board (Northern Area) held on December 13, 2024 at Kanpur	Secretary's
12.	Date and place of next Central Board Meeting – March 21, 2025 at Thiruvananthapuram	Secretary's
13.	Any other business with the permission of the Chair	Secretary's
Information Item		
i.	Compliance to the Directions of the Central Board	Secretary's